

परिशिष्ट सारणी 8 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	एलआइसी, नाबार्ड एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (+) घाटा (-) (12+13+14)	नकदी शेष में वृद्धि (+)/ कमी (-)	नकदी शेष निवेश खाते से आहरण (-)/में योगदान (+)	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-) कमी (+)	अन्य [16 - जोड़ (2 से 11)]	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	2,556	9,978	—	241	2,488	1,120	1,670	376	-154	74	-266	427	-88	438	18,787
1991-92	3,305	9,374	—	-19	2,355	1,343	1,587	724	-716	-156	-629	685	-212	1,104	18,900
1992-93	3,501	8,921	—	-46	2,990	1,523	2,378	3,197	-337	1,829	-602	2,248	183	-3,065	20,891
1993-94	3,620	9,533	—	113	3,649	1,541	1,561	-556	-226	-462	-561	137	-38	1,822	20,596
1994-95	4,075	14,760	—	2,099	3,787	1,713	3,545	788	59	4,468	-1,173	3,667	1,974	-7,597	27,697
1990-95 (औसत)	3,411	10,513	—	478	3,054	1,448	2,148	906	-275	1,151	-646	1,433	364	-1,460	21,374
1995-96	5,888	14,801	—	635	4,201	2,101	2,947	3,096	-338	2,850	465	3,589	-1,204	-4,754	31,426
1996-97	6,515	17,547	—	686	4,572	2,438	4,465	129	-7,505	-7,041	-6,794	415	-663	15,445	37,251
1997-98	7,280	23,676	—	1,504	5,268	2,930	3,521	271	-30	2,103	561	-385	1,926	-2,322	44,200
1998-99	10,467	31,057	—	2,382	10,004	3,588	7,131	1,483	2,244	-3,520	33,690	-32,982	-4,228	9,418	74,254
1999-2000	12,664	12,408	26,416	3,381	14,774	2,562	9,051	849	77	-3,113	625	-1,268	-2,470	12,411	91,480
1995-2000 (औसत)	8,563	19,898	26,416 *	1,718	7,764	2,724	5,423	1,166	-1,111	-1,744	5,710	-6,126	-1,328	6,040	55,722
2000-01	12,519	8,396	32,606	4,550	10,846	3,099	7,136	2,355	1,032	2,346	849	727	769	4,648	89,532
2001-02	17,249	10,974	35,648	6,285	7,977	4,521	4,996	-2,452	-427	-3,426	637	-1,203	-2,860	14,647	95,994
2002-03	28,484	-932	52,243	4,858	7,195	4,799	711	1,212	93	4,611	-5,057	2,762	6,907	-1,153	1,02,123
2003-04	47,286	14,117	20,813	4,132	7,122	6,377	-374	-3,651	1,850	1,075	-1,164	1,778	461	24,323	1,23,070
2000-04 (औसत)	26,385	8,139	35,328	4,956	8,285	4,699	3,117	-634	637	1,151	-1,184	1,016	1,319	10,616	1,02,680
2004-05	34,559	-11,804	67,924	26 **	7,829	7,127	8,074	-2,623	1,240	10,459	651	8,026	1,782	-13,554	1,09,257
2005-06 (सं.अ.)	18,630	2,205	74,483	5,588	9,042	3,250	-702	3,814	957	5,625	1,604	3,402	620	-9,005	1,13,888
2006-07 (ब.अ.)	22,762	4,827	58,162	7,531	8,739	4,365	-1,154	3,602	1,975	3,986	2,773	1,263	-50	-5,186	1,09,610

सं.अ. : संशोधित अनुमान

ब.अ. : बजट अनुमान

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय लघु बचत निधि

'-' : लागू नहीं

* 1999-2000 से संबंधित क्योंकि, यह मात्र उसी वर्ष से आरंभ हुआ। इस प्रकार, 1995-2000 (औसत) की मर्यादों को जोड़ सकल राजकोषीय घाटे के बराबर नहीं होगी।

** तामिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के बांडों के समायोजन के कारण तामिलनाडु ने एनसीडीसी से लिए गए ऋण के अंतर्गत 1376 करोड़ रुपए का नकारात्मक आंकड़ा दर्शाया।

टिप्पणियाँ : (1) 'अन्य' अवशिष्ट है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि में विनियोग, विविध पूंजी प्राप्ति, अंतर राज्य निपटान, भूमि प्रतिकर तथा अन्य बांड एवं सारणी में उल्लिखित के सिवाय वित्तीय संस्थानों से ऋण शामिल हैं।

(2) वर्ष 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण 'केन्द्र से ऋण' में लघु बचत संग्रह में राज्य का शेयर शामिल नहीं है, इसे 'आंतरिक ऋण' के अधीन एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत दर्शाया गया है। तदनुसार, प्राप्ति और व्यय के सतत लेखांकन हेतु केंद्र से ऋण की चुकौती के अंतर्गत शामिल लघु बचत संग्रह चुकौती को आंतरिक ऋण को चुकौती के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(3) जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के संबंध में वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

(4) सभी आंकड़े निवल आधार पर हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।